



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 भाद्र 1937 (श10)

(सं0 पटना 994) पटना, मंगलवार, 1 सितम्बर 2015

श्रम संसाधन विभाग  
(श्रम पक्ष)

कार्यालय आदेश  
17 अगस्त 2015

सं0 2/ई3-13039/2014 श्र0सं0-2507—कार्यालय आदेश सं0 58, दिनांक 13 अगस्त 2015, केन्द्रीय अनुकम्पा समिति, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-22/अनु0-04/2015-8187 दिनांक 08.06.2015 द्वारा अनुकम्पा के आधार पर श्री सोनू कुमार, पिता-स्व0 झूलन प्रसाद, भूतपूर्व सर्विस व्याय की वर्ग-03 के पद पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। केन्द्रीय अनुकम्पा समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर श्री सोनू कुमार की वर्ग-03, निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित वेतन बैंड रू0 5200-20,200/- एवं ग्रेड पे-1900/- में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित प्रभार ग्रहण करने की तिथि से नितान्त अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए श्रम अधीक्षक (कृषि श्रमिक), नालन्दा के कार्यालय में पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सोनू कुमार की जन्म तिथि 18.12.1991 है।
3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।
4. श्री कुमार पर मृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण-पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उन पर विभागीय कार्रवाई की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेंगे तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।
5. श्री कुमार को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं दहेज लेन-देन संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

7. यह नियुक्ति श्री कुमार द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों को सही मानकर किया जा रहा है। भविष्य में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर होने पर उनकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी और वेतनादि के मद में प्राप्त की गयी राशि की वसूली के साथ-साथ फौजदारी मुकदमा भी चलायी जा सकती है।
8. श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम -19 के प्रावधानों के तहत विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पत्ति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा।
9. श्री कुमार को योगदान के समय नोटरी पब्लिक द्वारा निर्गत इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि वे किसी आपराधिक मामले में संलिप्त/नामित आरोपी नहीं हैं एवं किसी मामले में उन्हें न्यायालय से सजा नहीं मिली है।
10. श्री कुमार पर नई अंशदायी पेंशन योजना ( वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक 17 नवम्बर, 2005) प्रभावी/लागू होगा।
11. श्री कुमार को नियुक्ति के छः माह के अन्दर कम्प्यूटर टंकण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है।
12. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-2082 दिनांक 01 अप्रैल, 2003 के प्रावधानों के तहत प्रशासनिक कार्यहित में राज्य स्तरीय राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ आदेश दिया जाता है।

आदेश से,  
प्रकाश कुमार,  
श्रमायुक्त, बिहार।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 994-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>